

आमंत्रण पत्रिका



आयोजन समिति

सी व्ही एस टी ए - २०२३

निर्वात विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और उसका अनुप्रयोग

प ऊ वि - बी आर एन एस पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में
आपको सादर आमंत्रित करती है।

उद्घाटन

मुख्य अतिथि

डॉ. राघवेंद्र तिवारी

सह निदेशक, पदार्थ वर्ग, भा प अ के

विशिष्ट अतिथि

श्री श्रीकृष्णा गुप्ता

पूर्व प्रमुख, टी टी एंड सी डी, भा प अ के

बुधवार, २५ अक्टूबर २०२३, ९:०० वजे

प ऊ वि सम्मेलन केंद्र, अणुशक्तिनगर, मुंबई

बी टी डी जी वर्ग, भा प अ के और इंडियन वेक्यूम सोसायटी, मुंबई
द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित

प्रायोजक :

नाभिकीय विज्ञान अनुसंधान बोर्ड, परमाणु ऊर्जा विभाग

कार्यक्रम पृष्ठ के दूसरी ओर

Invitation Card



Organizing Committee,

CVSTA-2023

**cordially invites you to the inaugural function of
DAE-BRNS Course on Vacuum Science
& Technology and its Applications**

Inauguration by

Chief Guest

Dr. Raghvendra Tewari

Associate Director, Materials Group, BARC

Guest of Honour

Shri Shrikrishna Gupta

Former Head TT&CD, BARC

Wednesday, October 25, 2023, 9:00 hrs.

DAE Convention Centre, Anushaktinagar, Mumbai

Jointly organised by

BTDG, BARC and Indian Vacuum Society

Sponsored by

Board of Research in Nuclear Sciences,

Department of Atomic Energy

सी व्ही एस टी ए -२०२३

CVSTA-2023

उद्घाटन सत्र
९:०० - ९:५० बजे

Inaugural Session
9:00 - 9:50 hrs

9:00 - 9:10 hrs

स्वागत संबोधन
Welcome Address

डॉ. अर्चना शर्मा
निदेशक, बी टी डी जी वर्ग, भा प अ के
Dr. Archana Sharma
Director, BTG Group, BARC

9:10 - 9:15 hrs

दीप प्रज्वलन

Lighting of Lamp

9:15 - 9:20 hrs

सी व्ही एस टी ए के बारे में
About CVSTA-2023

श्री संजय सेठी, भा प अ के
संयोजक, सी व्ही एस टी ए-२०२३
Shri Sanjay Sethi, BARC
Convener, CVSTA-2023

9:20 - 9:25 hrs

अध्यक्ष, आई व्ही एस का संबोधन
Address by President IVS

श्री मार्टिन मैस्करेनहास, भा प अ के
अध्यक्ष, आई व्ही एस, सी व्ही एस टी ए-२०२३
Shri Martin Mascarenhas, BARC
President, IVS & Chairman CVSTA - 2023

9:25 - 9:35 hrs

मुख्य अतिथि का संबोधन
Address by Chief Guest

डॉ. राघवेंद्र तिवारी
सह निदेशक, पदार्थ वर्ग, भा प अ के
Dr. Raghendra Tewari
Associate Director, Materials Group, BARC

9:35 - 9:45 hrs

विशिष्ट अतिथि द्वारा टिप्पणी
Special remarks by
Guest of Honour

श्री श्रीकृष्णा गुप्ता
पूर्व प्रमुख, टी टी एंड सी डी, भा प अ के
Shri Shrikrishna Gupta,
Former Head TT&CD, BARC

9:45 - 9:50 hrs

धन्यवाद ज्ञापन
Vote of Thanks

श्री एस. पी. डे, भा प अ के
सचिव, सी व्ही एस टी ए-२०२३
Shri S.P. Dey, BARC
Secretary, CVSTA-2023

High Tea : 9:50 - 10:15

थीम व्याख्यान : इलेक्ट्रॉन बीम प्रौद्योगिकियों में निर्वात, डॉ. नमिता माइति
सत्र अध्यक्ष : डॉ. एस. मुखोपाध्याय, निदेशक, ई एंड आई वर्ग
२८ अक्टूबर २०२३, ९:०० से १०:०० वजे

Theme Lecture: Vacuum in Electron Beam Technologies
by Dr. Namita Maiti, BARC
Session Chair: **Dr. S. Mukhopadhyay**, Director, E&IG, BARC
09:00 - 10:00 on October 28, 2023

समापन समारोह Valedictory Function

14:00 - 15:30 hrs

14:00 - 14:30 hrs

प्रतिभागियों द्वारा प्रतिक्रिया

Feedback by Participants

14:30 - 14:40 hrs

मुख्य अतिथि द्वारा संबोधन
Address by
Chief Guest

डॉ. पी. के. महापात्र
सह निदेशक, आर सी एंड आई वर्ग, भा प अ कें
Dr. P.K. Mohapatra,
Associate Director, RC&I Group, BARC

14:40 - 14:50 hrs

विशिष्ट अतिथि द्वारा टिप्पणी
Special remarks by
Guest of Honour

श्री पी. के. शर्मा
प्रमुख, पी एंड सीडी, भा प अ कें
Shri P.K. Sharma
Head P&CD, BARC

14:50 - 15:20 hrs

पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र का वितरण
Distribution of Awards
& Certificates

मुख्य अतिथि
विशिष्ट अतिथि
Chief Guest &
Guest of Honour

15:20 - 15:30 hrs

समापन टिप्पणी
Concluding Remarks

श्री नटराजु व्ही. भा प अ कें
सह अध्यक्ष, सी व्ही एस टी ए-२०२३
Shri Nataraju V., BARC
Co-Chairman, CVSTA-2023

राष्ट्रगान National Anthem